



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261869
CG-DL-E-22032025-261869

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946

No. 223]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा. सं. 18-27/12128-आईएनसी.-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, जीकॉन, जैसलमेर, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र परिसर, स्वास्थ्य भवन, डेडानसर रोड, जैसलमेर, जिला जैसलमेर-345001 (राजस्थान) राजस्थान राज्य सरकार तथा राजस्थान उपचर्या परिषद् द्वारा एएनएम तथा बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान राज्य सरकार, कमरा संख्या 5208, राजकीय सचिवालय मुख्य भवन, जयपुर-302005, राजस्थान को संबोधित नोटिस संख्या 18-27/12128-आईएनसी (56983) दिनांक 03.05.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 03.05.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति जीकॉन, जैसलमेर, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र परिसर, स्वास्थ्य भवन, डेडानसर रोड, जैसलमेर, जिला जैसलमेर-345001 (राजस्थान) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, जीकॉन, जैसलमेर, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी जीकॉन, जैसलमेर, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 04.09.2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये गंभीर कमियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि संस्थान एएनएम तथा बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 26.10.2024 से जीकॉन, जैसलमेर, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र परिसर, स्वास्थ्य भवन, डेडानसर रोड, जैसलमेर, जिला जैसलमेर-345001 (राजस्थान) से एएनएम तथा बी.एससी. नर्सिंग मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल राजस्थान राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1085/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 10th March, 2025

F. No. 18-27/12128-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Gcon, Jaisalmer , ANM Training Centre** situated at **ANM Training Centre Campus Swasthya Bhawan Dedansar Road, Jaisalmer, Distt. Jaisalmer 345001 Rajasthan** is recognized by State Government of Rajasthan and Rajasthan Nursing Council to conduct **ANM and B.Sc (N)** Course.

Whereas, a notice no. 18-27/12128-INC (56983) dated **03/05/2024** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to The Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Rajasthan, Room No. 5208, Govt. Secretariat Main Building, Jaipur Rajasthan – 302005 Rajasthan was issued Copy of the notice dated 03/05/2024 was also enclosed **Gcon, Jaisalmer , ANM Training Centre** situated at **ANM Training Centre Campus Swasthya Bhawan Dedansar Road, Jaisalmer, Distt. Jaisalmer 345001 Rajasthan**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Gcon, Jaisalmer, ANM Training Centre** Even the institution **Gcon, Jaisalmer, ANM Training Centre** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 04/09/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run ANM and B.Sc(N) Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 26/10/2024 any person holding a recognized qualification of **ANM and B.Sc(N)** from **Gcon, Jaisalmer , ANM Training Centre** situated at **ANM Training Centre Campus Swasthya Bhawan Dedansar Road, Jaisalmer, Distt. Jaisalmer 345001 Rajasthan** shall be entitled to be registered only in the State of Rajasthan.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./1085/2024-25]